

RICO AUTO INDUSTI

REGD.&CORP.OFFICE: 38 KM STONE, DELHI-JAIPUR HIGHWAY, GURUGRAM -122001, HARYANA (INDIA) EMAIL: rico@ricoauto.inWEBSITE: www.ricoauto.inTEL: +91 124 2824000FAX: +91 124 2824200 CIN: L34300HR1983PLC023187

RAIL:SEC:2022

March 03, 2022

BSE Limited	National Stock Exchange of India Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers	Exchange Plaza,
Dalal Street	5 th Floor, Plot No.C/1, G Block
Mumbai - 400001	Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
	Mumbai - 400051
Scrip Code - 520008	Scrip Code – RICO AUTO

Sub: Creditors,

Newspaper Clippings - Advertisement of notice of meetings of (i) Unsecured (ii) Secured Creditors and (iii) Equity Shareholders of the Company, to be held pursuant to the directions of the Hon'ble National

Company Law Tribunal, Chandigarh Bench

Dear Sir/Madam.

This has reference to our earlier letter dated 2nd March, 2022, informing you about meetings of the Unsecured Creditors, Secured Creditors and Equity Shareholders of Rico Auto Industries limited (Transferee Company), to be held pursuant to the directions given by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench vide its order dated January 06, through video conferencing ("VC") / other audio-visual means ("OAVM") as per below schedule:

Type of Meetings	Day and date of meetings	Time of meetings
Unsecured Creditors	Saturday, 2 nd April, 2022	2.30 p.m. (IST)
Secured Creditors	Sunday, 3 rd April, 2022	10.00 a.m. (IST)
Equity Shareholders	Sunday, 3 rd April, 2022	12.30 p.m. (IST)

to consider and if thought fit, for approving the proposed Scheme of Amalgamation ("Scheme") of RASA Autocom Limited, Rico Aluminium and Ferrous Auto Components Limited and Rico Investments Limited (the "Transferor Companies"), with and into the Transferee Company and their respective shareholders and creditors.

In this regard, we enclose herewith copies of the advertisement of notice of aforesaid meetings, given in the following newspapers today, i.e., Thursday, March 03 2022:

- Financial Express, Delhi NCR Editions, in English language; and
- Jansatta, Delhi NCR Editions in Hindi language.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully.

for Rico Auto Industries Limited

B.M. Jhamb

Company Secretary

FCS No. 2446

Encl: As above

FINANCIAL EXPRESS

DELHI JAL BOARD : GOVT. OF NCT OF DELHI OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER (SDW)-NW **KESHOPUR STP. KESHOPUR, DELHI 110018**

6

Estimate Cost E-tender ID Name of Work Earnest Money (EMD) 198.37 2022 DJB 217670 1 21.03.2022 Operation & Maintenance of 40 Lakhs 03:00 PM MGD Sewage Treatment Plant at

Demat Holding: Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address as per the process advised by DP.

CAPITAL TRUST LIMITED

(CIN-L65923DL1985PLC195299)

205 Centrum Mall, Sultanpur, M G Road, New Delhi-110030

Email- cs@capitaltrust.in, Website- www.capitaltrust.in

Notice of Extra Ordinary General Meeting and Remote E-Voting information

NOTICE is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting ('EOGM') of the members of Capital

Trust Limited will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual means ("OAVM")

on Saturday, 12th March, 2022 at 09:00 am to transact the Special Business, as set out in the Notice

of EOGM. The Notice of the Meeting and remote e-voting details have been sent in electronic mode

to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/RTA/Depository. The date of

In case you have not registered your email ID with the Company/ Depository, please follow below

instructions to register your email ID for obtaining notice of Extra Ordinary General Meeting and

Physical Holding: Send a request to Registrar and Transfer Agents of the Company, MAS Services

the share certificate (Front and Back), PAN (Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR

Limited at info@masserv.com providing Folio number; Name of the shareholder, scanned copy of

completion of email of the notices to the shareholders is 17th February, 2022

(Self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address.

CapitalTrust

For Capital Trust Limited

These documents are also available on Company's website www.capitaltrust.in for download by

Notice is hereby given in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act. 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Company has offered e-voting facility for transacting the business by National Securities Depository Limited (NSDL) through their portal www.evoting.nsdl.com to enable the members to cast their votes electronically. The remote e-voting period commences on Wednesday, 09th March, 2022 (09:00 am) and ends on Friday, 11th March, 2022 (05:00 pm). No e-voting shall be allowed beyond the said date and time. During this period members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 05th March, 2022, may cast their vote by remote e-voting. Any person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date may obtain the login ID and password by sending a request at cs@capitaltrust.in or RTA, MAS Services Limited at info@masserv.com. However, if the members are already registered with NSDL for remote e-voting then they can use their existing user ID and password for casting their vote. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The facility for voting through e-voting shall be made available at the EOGM and the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the EOGM may also attend the EOGM but shall not be entitled to cast their vote again. Shri Shashank Sharma, Practicing Company Secretary (Membership No FCS 19311 & CP No. 7221), Proprietor M/s, Shashank Sharma & Associates, Company Secretaries. has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process. The detailed procedure for remote e-voting is contained in the letter sent with the Notice of the EOGM. Any query/grievance relating

Place : Delhi Tanya Sethi Date: 18.02.2022 Company Secretary Regional Office:- Deini Plot No 20 & 21/1, Near Karol Bagh Metro Station, Opposite to Metro Pillar no 98, Pusa Road,

to e-voting may be addressed to Ms. Tanya Sethi, Company Secretary via Email on cs@capitaltrust.in

Karol Bagh, New Delhi - 110 005 Ph.: 45128661 Karol Bagh, New Delhi - 110 005 Ph.: 45128661
INDIAN Bank E-mail.: ro1008@sib.co.in CIN : L65191KL1929PLC001017 Notice issued in terms of Section 13(8) of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 read with 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. 1. M/s. Sukhvir Jain Son and Co 2. Ms. Preethi Pankaj Jain

Private Limited F-12/10B, Model Town - 2, Near Represented by its Director, Door no. Lake, Opposite to Boat Club, 83, First floor, Chawri Bazar, New Delhi New Delhi 110 009 110006 3. Mrs. Santhosh Jain 4. Ms. Preethi Pankaj Jain

(For Master Aaryaveer Jain F-12/10B, Model Town - 2, Near Lake, Opposite to Boat Club, as mother & Guardian) F-12/10B, Model Town – 2 Near Lake, Opposite New Delhi 110 009 to Boat Club, New Delhi 110 009 As you are aware, the Authorised Officer of the Bank have taken SYMBOLIC

POSSESSION of the immovable assets described in the Schedule Annexed

hereto in terms of Section 13(4) of the subject Act on 11/02/2022 in connection

with the outstanding dues payable by you to CR Park Branch of the bank. The amount due from you to the Bank is Rs. 11.07.59.675.72 (Rupees Eleven Crores Seven Lakh Fifty Nine Thousand Six Hundred And Seventy Five And Paisa Seventy Two Only) as on 11/02/2022 in the account of M/s. Sukhvir Jain Son and Co Private Limited with further interest and costs. AND WHEREAS, the Borrower / Co-Obligant / Guarantor has failed to pay the amount due to the bank even after taking SYMBOLIC POSSESSION of the

schedule property, notice is hereby given that the immovable properties will be sold by inviting Tenders/ by Public Auction/ by Private Treaty on expiry of 30 days from the date of receipt of this notice. The date and time of auction shall be informed through a separate sale notice as mentioned in the SARFAESI Act, and the property would be sold to the person who offers highest bid amount. Hence, in terms of the provisions of the subject Act and the Rules made there

under, this notice is issued to you to enable you to discharge the amount due to the bank before the publication of sale notice mentioned Supra. In the alternative, if you are having a better offer for the Scheduled property, you may also bring in purchasers for the same on or before the date fixed for sale. This is without prejudice to the right of the Authorised Officer to fix the date of sale

without any further notice and/ or any other rights available to the bank under the subject Act or any other law in force. SCHEDULE OF IMMOVABLE ASSETS

ITEM # 1 : All that part and parcel of Commercial Building admeasuring 35.39 Square Metres or 381 Square feet consisting of One Hall, Toilet with Two Kolki on First Floor upto Ceiling level without roof rights bearing part of property no. 83, situated at main Chawri Bazaar, Ward IX, Delhi 110 006, (Taluk Kashmere Gate), owned by Pankaj Jain (now deceased and represented by legal heirs-Addressees No 2 to 4) more particularly described under Gift Deed No. 10350 dated 18/12/2014 registered on 20/12/2014 at SRO-III, Delhi bounded on North by Main Chawri Bazaar and Foot Path, South by Other Property, East by Other Property and West by Other Property.

ITEM #1: All that part and parcel of Freehold Back portion of Freehold Property bearing no F-12/10 B with residential building on land admeasuring 200 Square Yards situated in layout plan of Residential Colony known as Model Town, Delhi 110 009 out of total land admeasuring 635 Sq. yards in the revenue estate of Malakpur Chhaoni, in Taluk Pithampura Delhi owned by Pankaj Jain (now deceased and represented by legal heirs- Addressees No 2 to 4) more particularly described under Sale Deed No. 2232 dated 24/02/2010 at SRO –VIA, Delhi bounded on North by Property no F-13/10-A, South by Road, East by Plot no. F-12/10-A and West by Road.

CHIEF MANAGER (Authorised Officer)

FORM G INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution

Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

Date: 24/02/2022

Place : Delhi

	RELEVANT PAR	RTICULARS
1.	Name of the corporate debtor	S.R. INDUSTRIES LIMITED
2.	Date of incorporation of corporate debtor	19 July 1989
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies, Delhi under the Companies Act, 1956
4.	Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	L29246PB1989PLC009531
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Registered Office: E-217, Industrial Area, Phase 8-B,Mohali, Punjab 160071 Principal Office: Village Singan, Tehsil Haroli, Distt. Una-176601, HP
6.	Insolvency commencement date of the corporate debtor	21.12.2021 (Order served to IRP on 21.12.2021)
7.	Date of invitation of expression of interest	03-03-2022
8.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	Details can be sought by emailing on Email -SRINDUSTRIESCIRP@GMAIL.COM
9.	Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	As per section 29A and other provisions of the Insolvency & Bankruptcy Code, 2016 Available on the website of IBBI http://ibbi.gov.in/webfront/legal_framework.php
	for the formal transmission flat and	10.00.0000

	3	Principal Office: Village Singan, Tehsil Haroli, Distt. Una-176601, HP
6.	Insolvency commencement date of the corporate debtor	21.12.2021 (Order served to IRP on 21.12.2021)
7.	Date of invitation of expression of interest	03-03-2022
8.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	Details can be sought by emailing on Email -SRINDUSTRIESCIRP@GMAIL.COM
9.	Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	As per section 29A and other provisions of the Insolvency & Bankruptcy Code, 2016 Available on the website of IBBI http://ibbi.gov.in/webfront/legal_framework.ph
10.	Last date for receipt of expression of interest	18-03-2022
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	28-03-2022
12.	Last date for submission of objections to provisional list	02-04-2022
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	12-04-2022
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	02-04-2022
15.	Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information	Information Memorandum, Request fo Resolution Plan and Evaluation Matrix will be shared by the Resolution Professional with the shortlisted Prospective Resolution Applicant(s

	prospective resolution applicants	
12.	Last date for submission of objections to provisional list	02-04-2022
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	12-04-2022
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	02-04-2022
15.	Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information	Information Memorandum, Request fo Resolution Plan and Evaluation Matrix will be shared by the Resolution Professional with the shortisted Prospective Resolution Applicant(s meeting the Eligibility Criteria as set out by the Committee of Creditors and compliance with section 29A of the I & B, Code, 2016 after receiving a confidentiality undertaking as persection 29(2) of the IBC 2016
16.	Last date for submission of resolution plans	02-05-2022
17.	Manner of submitting resolution plans	Through Speed post /registered post or

		section 29(2) of the IBC 2016
16.	Last date for submission of resolution plans	02-05-2022
		Through Speed post /registered post of by hand in a sealed cover Addressed to Rajender Kumar Jain, Ducturus Resolution Professionals Pvt. Ltd SCO-818, 1st Floor, Above Yes Bank, Sector 13, NAC Manimajra, Chandigarh - 16010

18. Estimated date for submission of resolution

19. Name and registration number of the

Name, Address and e-email of the

Address and email to be used for

22. Further Details are available at or with

23. Date of publication of Form G

correspondence with the resolution

resolution professional, as registered

resolution professional

with the Board

professional

Date: 03-03-2022

Place: Chandigarh

financialexp.epa

plan to the Adjudicating Authority for approval

04-06-2022

Rajender Kumar Jain IBBI/IPA-001/IP-P00543/2017-2018/10968

Rajender Kumar Jain House No. 3698/1, First Floor, Sector 46-C, Chandigarh-160047

E-mail id: rkjain.ip@gmail.com

Addressed to: Rajender Kumar Jain, Ducturus Resolution Professionals Pvt. Ltd SCO-818, 1st Floor, NAC Manimaira

Chandigarh - 160101. Email Id: SRINDUSTRIESCIRP@GMAIL.COM Rajender Kumar Jain, M. No. 9915598862 Email Id: SRINDUSTRIESCIRP@GMAIL.COM

03-03-2022 Rajender Kumar Jair Resolution Professional in the matter of SR Industries Limited

IBBI/IPA-001/IP-P00543/2017-2018/10968 Date: 2nd March, 2022 E-mail id: SRINDUSTRIESCIRP@GMAIL.COM

Place: Gurugram

Mob. 9650291199 E-mail: eesdwxii@gmail.com PRESS NIT No. 21 (2021-22) Re-invited Last date / time for receipt of tender through eprocurement solution

1 Up-gradation and Comprehensive Rithala Phase-II, Delhi for 10 years NIT along with all terms and condition is available on website. https://govtprocurement.delhi.gov.in Sd/- (Ashok SHARMA) ISSUED BY P.R.O. (WATER) **STOP CORONA** EE (SDW) XII Advt. No. J.S.V. 1191 (2021-22)

"Wash Your Hand, Wear Mask & Maintain Social Distance"

DhanlaxmiBank *****

S.No. Discription of Machinery

Date: 01.03.2022. Place: New Delhi

Dhanlaxmi Bank Ltd E108-109, Ground Floor, Lajpat Nagar, Part 1, New Delhi 110024

Authorized Signatory, Dhanlaxmi Bank Ltd.

Discription of Machinery

E-AUCTION NOTICE OF SALE OF MOVABLE PROPERTIES

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described movable items / property which have been in possession of Dhanlaxmi Bank Ltd, Regional Office 1st Floor 10185A Arya Samaj Road Karol Bagh New Delhi 110005, will be sold on "As is where is", "As is what is" basis in all respects on 06.04.2022 for recovery of Rs.29,02,16,178.33 (Rupees Twenty Nine Crore two lakh sixteen thousand one hundred seventy eight rupees and thirty three paisa only) as on 28.02.2022 from M/s Noida Medicare Centre Ltd and Mr. Naveen Chaudhri, Mrs.Amita Chaudhri & M/s NMC Biopharm Pvt Ltd (Previously known as NMC Overseas Ltd). The reserve price will be $\bf Rs.\,27,00,000$ /- (Rupees Twenty Seven Lakhs) and the earnest money deposit will be **Rs. 2,70,000/-** (Rupees Two Lakh Seventy Thousand only). Description of the movable items / property:

1	AirLock	18	Multi Station Tablet Compression Machine
2	Strapping Machine	19	Tablet Coater
3	Strip Packing Machine	20	Auto Coater
4	SugarTank	21	Chiller
5	Blender	22	HVAC System
6	Rapid Mix Granulator	23	Electrical Panels
7	Cadmill Multimix	24	Trolley
8	Floor Cleaning Machine	25	Racks
9	Lift	26	Cable
10	Pressure owen	27	Tanks
11	Fluid Bed Dryer	28	Testing Equipment
12	Steam Pan	29	Quality Control Equipment
13	Paste Maker	30	Tables
14	Auto Clave	31	Chair
15	ROPlant	32	Dessicator
16	Boiler	33	UV Cabinet
17	Compressor	34	Steam Generator

RICO AUTO INDUSTRIES LIMITED

Regd. & Corp. Office: 38 KM Stone, Delhi-Jaipur Highway, Gurugram-122001, Haryana Email: cs@ricoauto.in, Website: www.ricoauto.in

Tel: 0124 2824000, Fax: 0124 2824200, CIN: L34300HR1983PLC023187

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, CHANDIGARH BENCH, CHANDIGARH FORM NO. CAA. 2

[Pursuant to Section 230 (3) & Rule 6 and 7] Company Application No. CA(CAA)-43/CHD/HRY/2021

In the matter of Sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 And

> In the matter of Scheme of Amalgamation Amongst RASA Autocom Limited

(Transferor Company-1/Applicant Company-I) Rico Aluminium and Ferrous Auto Components Limited

> (Transferor Company-2/Applicant Company-II) Rico Investments Limited

(Transferor Company-3/Applicant Company-III)

Rico Auto Industries Limited (Transferee Company/Applicant Company-IV)

Their respective shareholders and creditors [For the sake of brevity, Applicant Company-I, Applicant Company-II, Applicant Company-IV are

Notice and Advertisement of Notice of the meeting of Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of Rico Auto Industries Limited ("Company")

hereinafter collectively referred to as "Applicant Companies"]

Notice is hereby given that by an order dated January 06, 2022 ("Order"), the Hon'ble National Company Law Tribunal, Bench at Chandigarh ("Tribunal") has directed to convene separate meetings of unsecured creditors, secured creditors and equity shareholders of the Company for the purpose of considering, and if thought fit, approving, with or without modification(s), the proposed scheme of amalgamation amongst the Applicant Companies and their respective shareholders and creditors under the provisions of sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with the rules made thereunder.

In pursuance of the aforesaid Order and as directed therein read with the applicable provisions of the Act, circulars issued thereunder and regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, further notice is hereby given that separate neetings of unsecured creditors, secured creditors and equity shareholders of the Company will be held through video conferencing/other audio visual means ("VC/OAVM") with facility of remote e-voting as per the schedule mentioned herein below, at which time the unsecured creditors, secured creditors and equity shareholders of the Company are requested to attend:

SI.No.	Particulars of Meeting	Time (IST)	Day & Date of Meeting
1.	Unsecured Creditors	02:30 p.m.	Saturday, 2nd April, 2022
2.	Secured Creditors	10:00 a.m.	Sunday, 3rd April, 2022
3.	Equity Shareholders	12:30 p.m.	Sunday, 3rd April, 2022

In compliance with the aforesaid Order of the Hon'ble Tribunal, the Company has provided the facility of voting by means of remote electronic voting ("Remote e-voting") and e-voting during the aforesaid meetings. The Company has engaged the facility of NSDL for the purpose of providing facility of Remote e-voting and e-voting during the meetings to all participants. The detailed instructions for joining the meetings through VC/OAVM, manner of casting vote through Remote e-voting prior to the meeting or through e-voting during the meeting, are given in the notes to the notice convening the aforesaid meetings. Notices together with documents accompanying the same, of the aforesaid meetings have been sent to the equity shareholders of the

Company as on 18th February, 2022 (being cut-off date) and to secured creditors and unsecured creditors of the Company as on 31st July, 2021

The cut-off date for Remote e-voting and time period for the Remote e-voting of the aforesaid meetings are as under:

Particulars	Equity Shareholders	Secured Creditors	Unsecured Creditors
	Meeting	Meeting	Meeting
Cut-off date for Remote e-voting	Friday, 25th March, 2022	Saturday, 31st July, 2021	Saturday, 31st July, 2021
Remote e-voting start day, date and time	Tuesday, 29th March, 2022,	Tuesday, 29th March, 2022,	Monday, 28th March, 2022,
	at 09:00 a.m. (IST)	at 09:00 a.m. (IST)	at 09:00 a.m. (IST)
Remote e-voting end day, date and time	Saturday, 2nd April, 2022	Saturday, 2nd April, 2022	Friday, 1st April, 2022,
	at 05:00 p.m. (IST)	at 05:00 p.m. (IST)	at 05:00 p.m. (IST)

If an equity shareholder, secured creditor or unsecured creditor casts their vote by Remote e-voting as well as e-voting during the meetings, then the voting done through Remote e-voting shall prevail and voting by e-voting during the meetings shall be treated as invalid. Further, equity shareholders, secured creditors or unsecured creditors, as the case may be, who opt to cast their vote through Remote e-voting will only be entitled to attend the aforesaid meetings but shall not be allowed to vote again during the meetings.

Equity Shareholders, who have not registered their e-mail address, are requested to register the same, in respect of the equity shares held in demat form with their Depository Participant(s), and in respect of equity shares held in physical mode, please provide folio No., name of shareholder, scanned copy of share certificate (front and back), PAN (self-attested), Aadhar (self-attested) to cs@ricoauto.in

Further, secured creditors and unsecured creditors, whose e-mail IDs are not available in the records of the Company may follow the process for procuring User IDs and Password and registration of e-mail IDs for e-voting as provided in the Notes to notices of the An equity shareholder, whose name is recorded in the register of members/list of beneficial owners maintained by the Depositories as on

the above cut-off date, shall only be entitled to avail the voting options. The voting rights of equity shareholders shall be in proportion to their holding in paid-up share capital of the Company as on 25th March, 2022. Further, secured and unsecured creditors, whose names are recorded in the records of the Company as on the above Cut-Off date, shall

only be entitled to vote. The voting rights of secured creditors and unsecured creditors shall be in proportion to value of debts recorded in the books of the Company as on 31st July, 2021. In case a person has become equity shareholder of the Company after dispatch of the notice but on or before the Cut-off date i.e. 25th

March, 2022, or has registered the e-mail address after dispatch of the notice, such equity shareholder may obtain the user ID and password in the manner outlined in the notice of meeting. Since the aforesaid meetings will be held through VC/OAVM, the facility for appointment of proxies will not be available for the meetings.

However, institutional/corporate shareholders and creditors etc. are entitled to appoint their authorized representatives for the purpose of voting through remote e-voting, for participation in the meetings. However, corporate members and/or creditors may appoint their authorised representatives for the purpose of voting through Remote e-voting and e-voting during this meeting, provided that such corporate members/creditors intending to attend the meeting through their authorised representatives are required to send a duly certified copy of the Board Resolution or the authority letter or power of attorney of the board of directors or other governing body of the body corporate authorizing their representative(s) to attend and vote at this meeting by e-mail at csrahuljogi@gmail.com or cs@riccauto.in with a copy marked to evoting@nsdi.co.in not later than 48 hours before the scheduled time of the commencement of the The Hon'ble Tribunal has appointed Mr. Aashish Chopra, Senior Advocate as the Chairperson, Mr. Raghav Kakkar, Advocate as the

Alternate Chairperson and Mr. Rahul Jogi, Advocate as the Scrutinizer for the aforesaid meetings of the Company. The scheme of amalgamation, if approved in the aforesaid meetings, will be subject to the subsequent approval of Hon'ble Tribunal. The results of the aforesaid meetings shall be announced by the Chairperson of the meetings, within two (2) working days of the

conclusion of the meetings upon receipt of Scrutinizer's report and the same shall be displayed on the website of the Company at

www.ricoauto.in and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com, besides being communicated to stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. Copies of the said notices, scheme and explanatory statement under sections 230 to 232 read with section 102 and other applicable provisions of the Act and rules made thereunder will be available for inspection on website of the company www.ricoauto.in and also at

Registered Office of the company. In case of any queries/grievances with respect to votings, the equity shareholders and creditors may refer FAQs section for shareholders and e-voting user manual available at the "Downloads" section at www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request at evoting@nsdl.co.in.

> B.M. Jhamb Authorised Representative/Company Secretary (FCS: 2446)

For Rico Auto Industries Limited

PUBLIC NOTICE LOST AND FOUND

Notice is hereby given to the public that the Original Sale Deed No. 1770 dated 31.03.2010, addl. book No. 1, Vol. 2, pages 1-2 for the land measuring 4 Kanal 16 Marla falling in the revenue estate of Village Badha, Tehsil Manesar, District Gurgaon, registered before Sub-Registrar, Manesar, Distt. Gurgaon, Haryana, have been lost. Any person(s) who finds the above mentioned sale deed is requested to return the same to us at the below mentioned address. No person(s) shall misuse this document, and if any person(s) found misusing the same shall be liable for such acts.

Director M/s Blue Chip Properties Pvt. Ltd., Plot No. 77, Sector 44, Gurugram (HR) PIN:122003, Tel.: +91-124-4335100

PUBLIC NOTICE LOST AND FOUND

Notice is hereby given to the public that the Original Sale Deed No. 161 dated 29.04.2010, addl. book No. 1, Vol. 2, pages 1-2 for the land measuring 24 Kanal 17 Marla falling in the revenue estate of Village Badha, Tehsil Manesar, District Gurgaon and Sale Deed No. 1471 dated 18.02.2010, addl. book No. 1, Vol. 2, pages 1-2 for the land measuring 50 Kanal 8 Marla falling in the revenue estate of Village Badha, Tehsil Manesar, District Gurgaon, both registered before Sub-Registrar, Manesar, Distt. Gurgaon, Haryana, have been lost. Any person(s) who finds any of the above mentioned sale deeds is requested to return the same to us at the below mentioned address. No person(s) shall misuse this document, and if any person(s) found misusing the same shall be liable for such acts.

Director, M/s North Star Towers Pvt. Ltd. Plot No. 77, Sector 44, Gurugram (HR) PIN:122003, Tel.: +91-124-4335100

PUBLIC NOTICE LOST AND FOUND

Notice is hereby given to the public that the Original Sale Deed No. 857 dated 27.08.2010, addl. book No. 1, Vol. 2, pages 1-2 for the land measuring 12 Kanal O Marla falling in the revenue estate of Village Badha, Tehsil Manesar, District Gurgaon and Sale Deed No. 1158 dated 07.10.2010, addl. book No. 1, Vol. 2, pages 1-2 for the land measuring 22 Kanal O Marla falling in the revenue estate of Village Badha, Tehsil Manesar, District Gurgaon, both registered before Sub-Registrar, Manesar, Distt. Gurgaon, Haryana, have been lost. Any person(s) who finds any of the above mentioned sale deeds is requested to return the same to us at the below mentioned address. No person(s) shall misuse this document, and if any person(s) found misusing the same shall be liable for such acts.

Director, M/s Green Gem Estates Pvt. Ltd., Plot No. 77, Sector 44, Gurugram (HR) PIN:122003, Tel.: +91-124-4335100

[Pursuant to Rule 30 of The Companies (Incorporation) Rules, 2014] BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT THE REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION, MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, NEW DELHI

In the matter of The Companies Act, 2013, Section 13 (4) of The Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of The Companies (Incorporation) Rules, 2014

In the matter of DNS Associates Private Limited ("the Company") having its registered office at SS-1, Plot no. 9 D. 02nd Floor, Aditya Mega Mall, Central Business District, Shahdara, Delhi 110032 NOTICE Notice is hereby given to the General Public that

the Company proposes to make application to the Central Government under Section 13 of The Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of Special Resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on Monday the 28th day of February, 2022 to enable the Company to change its Registered office from "NCT of Delhi" to "State of Uttar Pradesh". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office

of the Company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to The Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, New Delhi at the address B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deendayal Antyoday Bhawan, CGO Complex, New Delhi 110003 within 14 (Fourteen) days of the date of publication of this notice with a copy of the same to the Applicant Company at its Registered Office at the address mentioned below Regd. Office Address: SS-1, Plot no. 9 D, 02nd Floor, Aditya Mega Mall, Central Business

For and on behalf of the Applicant DNS ASSOCIATES PRIVATE LIMITED

District, Shahdara, Delhi 110032

NEHA SETH Place: Delhi Director Date: 02.03.2022 DIN: 06729501 'IMPORTANT'

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

SRIN ESTATE HOLDINGS PRIVATE LIMITED CIN: U70102UP2013PTC058824

Registered Office: B-53, Mandir Marg Mahanagar Extn, Lucknow UP 226006 IN Contact Details: sehpltd@gmail.com FORM NO INC-26 Pursuant to Rule 30 of the Companies

Before the Central Government, Northern Region, In the matter of Sub-Section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

(Incorporation) Rules, 2014]

In the matter of SRIN ESTATE HOLDINGS PRIVATE LIMITED having its registered office at B-53, Mandir Marg, Mahanagar Extn, Lucknow UP 226006 IN

Notice is hereby given to the General Public that the

Company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Extra-Ordinary General Meeting held on Monday, February 28, 2022 to enable the Company to change its registered office from "State of Uttar Pradesh" to "National Capital Territory of Delhi". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the Company may deliver either on the MCA-21 Portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Office of Regional Director B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003, within Fourteen days of the date of publication of this notice with a copy of the applicant Company at its registered office at the address mentioned below. Address: Srin Estate Holdings P Ltd, B-53, Mandir

For and on Behalf of Board Srin Estate Holdings Private Limited RAHUL BHASIN Date: 02/03/2022 Director

DIN- 01759247

New Delhi

Marg Mahanagar Extn, Lucknow UP 226006 IN

M/s TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD. invites bids from

ΤΛΤΛ

interested parties for purchase of goods and inventories mentioned herein on "As is where is basis" & "As is what is and whatever there is & without recourse basis" for the recovery of the dues. The said inventories are lying at Plot No G-54, Area Jainpur Village, Tehsil Akberpur, Kanpur Dehat, Uttar Pradesh. The successful buyer/bidder shall bear all the costs and charges related to

removal of the said goods and inventories as well as pick-up the same from the aforesaid property within 7 working days from the date of confirmation by LAST DATE & TIME FOR SUBMISSION OF BIDS: 14.03.2022 upto 15:00 hrs.

TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED

INVITING BIDS FOR SALE OF INVENTORY

Branch Address: 7th Floor, Videocon Tower,

Jhandewalan Extention, Block - E. Delhi - 110055

For Bid Forms, list of inventory/goods and other queries, the interested parties should contact to MR. Yogesh Srivastava, e-mail Yogesh.Srivastava@tatacapital.com & Mobile: +91-6389112619.

Sd/-Authorised Officer. Date: 03.03.2022 PLACE: Kanpur, Uttar Pradesh Tata Capital Financial Services Limited

DhanlaxmiBank

Rs.1,20,000/- (Rupees One Lakh twenty thousand only).

E108-109. Ground Floor Laipat Nagar, Part 1, New Delhi 110024 E-AUCTION NOTICE OF SALE OF MOVABLE PROPERTIES

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described movable items / property which have been in possession of Dhanlaxmi Bank Ltd, Regional Office 1st Floor 10185A Arya Samaj Road Karol Bagh New Delhi 110005, will be sold on "As is where is", "As is what is" basis in all respects on 06.04.2022 for recovery of Rs.29,02,16,178.33 (Rupees Twenty Nine Crore two lakh sixteen thousand one hundred seventy eight rupees and thirty three paisa only and other charges due to the Dhanlaxmi Bank Ltd as on 28.02.2022 from M/s Noida Medicare Centre Ltd and Mr. Naveen Chaudhri, Mrs.Amita Chaudhri & M/s NMO Biopharm Pvt Ltd (Previously known as NMC Overseas Ltd). The reserve price will be Rs.12,00,000/- (Rupees Twelve Lakhs only) and the earnest money deposit will be

Description of the movable items / property: S.No. Discription of Items | Remarks Kirloskar DG Set (320 KVA) Maruti Omni Car DL9CE5879 Mahindra Car DL7C M 0481

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Dhanlaxmi Bank's website i.e. www.dhanbank.com

Date: 01.03.2022. Authorized Signatory. **Place: New Delhi** Dhanlaxmi Bank Ltd.

PUBLIC NOTICE

CP (IB) No. 277/Chd/Pb/2018 pursuant to Hon'ble NCLT

Chandigarh Bench vide order Dated 07.01.2022 Punjab National Bank Vs Kudos Chemie Limited IA No. 270/2021 Next Date: 26.04.2022

NCLT, Chandigarh Bench in IANo. 277 of 2018: Respondents: Rahul Sales Limited (Respondent No. 7), SCO-151-152, IInd Floor, Sector 8 C, Chandigarh.

Publicationis being issued to respondents as per the directions of Hon'ble

In above titled case the respondent could not be served through speed post. Hence, Resolution Professional is adopting substituted mode of service for the above respondents through publication in accordance with Hon'ble NCLT order dated 07.01.2022 in IA No.270/2021 in the matter of CIRP of Kudos Chemie Limited

The above respondents are directed to attend the sitting members of the Tribunal on the date fixed, personally or through any authorised agent or

oc/0404115002312021/04/Order-Challenge/04_order-Challange_004_

The undersigned can be contacted for any clarification. For details, refer to link given below:https://nclt.gov.in/gen_pdf.php?filepath=/Efile_Document/ncltdoc/cased

16424109385273552461e533ba1e7aa.pdf Rajender Kumar Jain (Regn No.IBBI/IPA-001/IP-P00543/2017-2018/10968) Resolution Professional in the matter of Kudos Chemie Limited

Address registered with IBBI:-House No. 3698/1, First Floor, Sector 46-C, Chandigarh-160047 Address for correspondence: - SCO- 818, First Floor, above Yes Bank, NAC, Manimajra, Chandigarh- 160101

Date: 02.03.2022 Place: Chandigarh Email: For Correspondencekudoschemie.ip@gmail.com Mobile +91-99155-98862

PUBLIC ANNOUNCEMENT (Regulation 14 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017) FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF YAPAPP INDIA

FORM A

PRIVATE LIMITED YAPAPP INDIA PRIVATE LIMITED NAME OF CORPORATE PERSON 2. DATE OF INCORPORATION OF 31 May 2016 CORPORATE PERSON AUTHORITYUNDER WHICH CORPORATE REGISTRAR OF COMPANIES

PERSON IS INCORPORATED/REGISTERED CHANDIGARH CORPORATE IDENTITY NUMBER LIMITED LIABILITY IDENTITY NUMBER OF U72900PB2016FTC051039 CORPORATE PERSON

5. ADDRESS OF THE REGISTERED OFFICE #2244, Block-C Sector-66 B, AERO AND PRINCIPAL OFFICE (IFANY) OF CITY SAS Nagar Mohali Punjab 160062 CORPORATE PERSON

8. LAST DATE FOR SUBMISSION OF CLAIMS 31 March 2022

LIQUIDATION COMMENCEMENT DATE OF 28 February 2022 CORPORATE PERSON NAME, ADDRESS, EMAIL ADDRESS, Surendra Raj Gang

REGISTRATION NUMBER OF THE Address: GT Restructuring Services LLP. L41 Connaught Circus New Delhi-110001 E-Mail - Surendra.raj@in.gt.com E-Mail-Lq.yapapp@in.gt.com

TELEPHONE NUMBER AND THE |BBI/IPA-001/IP-P01066/2017-18/11773

Notice is hereby given that the YAPAPP INDIA PRIVATE LIMITED has commenced voluntary liquidation on 28 February 2022. The stakeholders of YAPAPP INDIA PRIVATE LIMITED are hereby called upon to submit a proof of their claims, on or before 31 March 2022 to the liquidator at the address

mentioned against item 7. The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Surendra Raj Gang IBBI/IPA-001/IP-P01066/2017-18/11773 Liquidator for YAPAPPP INDIA PRIVATE LIMITED Registered address and email ID of the Liquidator with the IBBI: Address: GT Restructuring Services LLP.

Place: New Delhi L 41 Connaught Circus, New Delhi-110001 Date: 03 March 2022 E Mail: Surendra.raj@in.gt.com



2nd Floor, Aggarwal Corporate Tower, Govind Lal Sikka marg, Rajendra Place, New Delhi-110008 NOTIFICATION FOR EMPANELMENT OF GOLD JEWEL APPRAISERS

We intend to empanel new Gold Jewel Appraisers/profesionais. They will be engaged at branches to assist in the process of Gold jewels quality assessment and weight measurement. The services of the empaneled appraisers are purely a matter of contract. There would be no claim for employment by the appraiser whether part time or full time at any point of time in future.

Eligibility Applicant should be Indian national and permanent resident of nearby area of the branch and well established in his/herarea of operations/trade/business/vocation and KYC

• The applicant should be a skilled goldsmith having minimum three (3) years of experience in the similar line of business

The applicant should preferably be a member of the local bullion market with proper identification. The applicant should preferably possess a certificate of experience in jewel making issued

by a training institute like dept. of MSME Gold Jewel association, Gold Smith Association etc. Preference will be given to applicants having license of testing Gold Ornaments. Flexible surety deposit to be made at the time of empanelment.

 The applicant should not have been convicted of any criminal offence and sentenced to imprisonment in the past. The applicant should not be closely related to any staff of the branch for which he/she is

being empaneled. The applicant who are already on the panel of other Banks/FI can also apply with No. Objection Certificate from the Bank/FI. However, preference will be given to those who are

qualified and interested to work with our bank exclusively. The Gold Appraisers will be paid appraisal fee as per the bank norms. Acceptance/rejection of the application is at the sole discretion of the Bank and no further

correspondence will be entertained in this regard. Last date for submission of the application is 12.03.2022 For further details and application please contact nearest Branch/Regional Office of Union Bank of India or our Website www.unionbankofindia.co.in

Sr. No. **Branch Name** Sol ID of branch Mobile Number Gurgaon, Sector-31 07782 8700493844 21871 7304292892 Jharsa Old Station Road, Gurgaon 23731 7838245450 20521 Palwal 9953224030 4 18041 9099264402 NIT Faiedabad Rosewood City 6 26681 7042597440

REGIONAL HEAD

समूह महाप्रबंधक / तकनीकी (एरिया-1

108-109, भूतल, लाजपत

नगर, भाग 1, नई

दिल्ली-110024

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता,

धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड

केंद्रीय सरकार के समझ, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) और

शाहदरा, दिल्ली 110032 में है के मामलें में

ढीएनएस एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड ("कंपनी" जिसका पंजीकृत कार्यालय एसएस-1, प्लॉट नं0. 9 डी, 02वां तल, आदित्य मेगा मॉल, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट,

एतदहारा सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली की रा.रा. **हो,"** से "**उत्तर प्रदेश राज्य"** में स्थानान्तरित करने के सहाम बनाने हेत कंपनीज अधिनियम. 2013 की घारा 13 के अन्तर्गत सोमवार, 28 फरवरी, 2022 को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रमावित होने की संमावना है तो वह निवेशक शिकायत फॉर्म फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर प्रकृति एवं विरोध का आधार बतातें हुए, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह) दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के पते बी-2 विंग, 2 फ्लोर, पं. दीनदयाल अंत्योदय मवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा सूचित करें, और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के निम्नलिखित पते पर भेजी जानी

पंजीकृत कार्यालय पताः एसएस-1, प्लॉट नं0. 9 डी. 02वां तल. आदित्य मेगा मॉल, सेंट्रल विजनेस डिस्ट्रिक्ट, शाहदरा, दिल्ली 110032 कृते और आवेदक की ओर से

हस्ता/-नेहा सेव स्थानः दिल्ली निदेशक तिथिः 02.03.2022 DIN: 06729501

CAPITAL TRUST LIMITED **CapitalTrust** (CIN-L65923DL1985PLC195299) 205 Centrum Mall, Sultanpur, M G Road, New Delhi-110030

Email- cs@capitaltrust.in, Website- www.capitaltrust.in Notice of Extra Ordinary General Meeting and Remote E-Voting information NOTICE is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting ("EOGM") of the members of Capita Trust Limited will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual means ("OAVM") on Saturday, 12th March, 2022 at 09:00 am to transact the Special Business, as set out in the Notice of EOGM. The Notice of the Meeting and remote e-voting details have been sent in electronic mode to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/RTA/Depository. The date of

completion of email of the notices to the shareholders is 17th February, 2022. In case you have not registered your email ID with the Company/ Depository, please follow below instructions to register your email ID for obtaining notice of Extra Ordinary General Meeting and

Physical Holding: Send a request to Registrar and Transfer Agents of the Company, MAS Services imited at info@masserv.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of

the share certificate (Front and Back), PAN (Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address. Demat Holding: Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address

as per the process advised by DP. These documents are also available on Company's website www.capitaltrust.in for download by

Notice is hereby given in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Reguirements) Regulations, 2015 that the Company has offered e-voting facility for transacting the business by National Securities Depository Limited (NSDL) through their portal www.evoting.nsdl.com to enable the members to cast their votes electronically. The remote e-voting period commences on Wednesday, 09th March, 2022 (09:00 am) and ends on Friday, 11th March, 2022 (05:00 pm). No e-voting shall be allowed beyond the said date and time. During this period members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 05th March, 2022, may cast their vote by remote e-voting. Any person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date may obtain the login ID and password by sending a request at cs@capitaltrust.in or RTA, MAS Services Limited at info@masserv.com. However, if the members are already registered with NSDL for remote e-voting then they can use their existing user ID and password for casting their vote. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The facility for voting through e-voting shall be made available at the EOGM and the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the EOGM may also attend the EOGM but shall not be entitled to cast their vote again. Shri Shashank Sharma, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 19311 & CP No. 7221), Proprietor M/s. Shashank Sharma & Associates, Company Secretaries. has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process. The detailed procedure for remote e-voting is contained in the letter sent with the Notice of the EOGM. Any query/grievance relating to e-voting may be addressed to Ms. Tanya Sethi, Company Secretary via Email on cs@capitaltrust.in. For Capital Trust Limited

Place : Delhi Tanya Sethi Date: 18.02.2022 Company Secretary

DhanlaxmiBank

धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड

ई 108-109, भूतल, लाजपत नगर पार्ट 1, नई दिल्ली-110024

चल मदों/सम्पत्ति का विवरण

		201 (1)	ासारा जा विजर्ग
1.	एयर लॉक	18.	मल्टी स्टेशन टैबलेट कम्प्रेशन मशीन
	स्ट्रैपिंग मशीन	19.	टैब्लेट कोटर
	स्ट्रिप पैकिंग मशीन	20.	ऑटो कोटर
	सुगर टैंक	21.	चिलर
	ब्लेण्डर	22.	एचवीएसी सिस्टम
	रैपिड मिक्स ग्रेन्यूलेटर	23.	इलेक्ट्रिकल पैनल्स
	कैडमिल मल्टीमिक्स	24.	ट्रॉली
	फ्लोर क्लीनिंग मशीन	25.	रैक्स
	लिफ्ट	26.	कैबल
0.	प्रेशर ओवन	27.	
1.	फ्लुईड बेड ड्रायर	28.	टेस्टिंग उपकरण
2.	स्टीम पैन	29.	क्वालिटी कन्ट्रोल इक्विपमेन्ट
3.	पैस्ट मेकर	30.	टैबल्स
4.	ऑटो क्लेव	31.	कुसियां
5.	आरओ प्लान्ट	32.	डेसिकेटर
6.	बॉयलर	33.	यूवी कैबिनेट
		34.	स्टीम जनरेटर

रिको एल्यूमीनियम एंड फेरस ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः 38 केएम स्टोनं, दिल्ली—जयपुर राजमार्ग, गुरुग्राम—122001, हरियाणा ईमेलः rkmiglani@ricoauto.in] दूरभाष सं. 0124-2824000, फैक्सः 0124 2824200 सीआईएनः यु३४३००एचआर२००८पीएलसी०३७५६

राष्ट्रीय कंपनी विधिक अधिकरण, चंडीगढ पीठ, चंडीगढ के समक्ष प्रपत्र सं. सीएए.2

(धारा 230 (3) तथा नियम 6 एवं 7 के अनुपालन में) कंपनी आवेदन सं. सीए(सीएए)-43 / सीएचडी / एचआरवाई / 2021 कंपनी (समझौता, व्यवस्थापन और समामेलन) नियमावली 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 से 232 और अन्य लागू प्रावधानों के प्रसंग में

> समामेलन की योजना के प्रसंग में जो कि रासा ऑटोकॉम लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कंपनी–1/आवेदक कमंपनी–।)

रिको एल्यूमीनियम एंड फेरस ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड

(हस्तांतरणकर्ता कंपनी–2/आवेदक कंपनी–।।)

रिको इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कंपनी-3/आवेदक कंपनी-111)

रिको ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड (हस्तांतरिती कंपनी/आवेदक कंपनी-IV)

उनके संबंधित अंशधारकों और ऋणदाताओं के मध्य है

(संक्षिप्तता के लिए आवेदक कंपनी-।, आवेदक कंपनी-।।, आवेदक कंपनी-।।। और आवेदक कंपनी-IV यहां इसमें इसके उपरांत सामूहिक रूप में ''आवेदक कंपनियों'' के रूप में संदर्भित हैं)

> रिको एल्यूमीनियम एंड फेरस ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड ("कंपनी") के अप्रतिभूत ऋणदाताओं की बैठक की सूचना की सूचना तथा विज्ञापन

एतदद्वारा सचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधिक अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ ("अ**धिकरण")** ने अपने एक आदेश दिनांकित 06 जनवरी 2022 ("आदेश") द्वारा निर्देश दिया है कि कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के अंतर्गत विरचित नियमावली के साथ पठित उसकी धारा 230 से 232 के प्रावधानों के अंतर्गत आवेदक कंपनियों और उनके संबंधित अंशधारकों एवं ऋणदाताओं के मध्य समामेलन की प्रस्तावित योजना पर विचार करने, और यदि विचार उचित बनता है तो इसका संशोधन(नों) के साथ अथवा इसके / इनके बिना अनुमोदन करने, के उददेश्य से कंपनी के अप्रतिभृत ऋणदाताओं की बैठक का आयोजन किया जाए।

अधिनियम के लागू प्रावधानों के साथ पठित उपर्युक्त आदेश और उसमें उसके अंतर्गत दिए गए निर्देश, उसके अंतर्गत निर्गत परिपत्रों के अनुपालनानुसार एतदद्वारा आगे यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के अप्रतिभूत ऋणदाताओं की एक बैठक का आयोजन जो है वह शनिवार 2 अप्रैल 2022 के अपराहन 12.30 बजे दूरस्थ ई-मतदान की सुविधा के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग / अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों ("वीसी/ओएवीएम") के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें उपस्थित होने के लिए कंपनी के अप्रतिभूत ऋणदाताओं से अनुरोध किया जाता है।

माननीय अधिकरण के उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में कंपनी ने उपर्युक्त बैठक के दौरान दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक मतदान ("दूरस्थ ई-मतदान") तथा ई–मतदान के माध्यमों से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई है। कंपनी ने बैठक के दौरान अपने सभी अप्रतिभृत ऋणदाताओं को दरस्थ ई–मतदान और ई-मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एनएसडीएल की सुविधा जुटाई है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक से जुड़ने के विस्तृत अनुदेश, बैठक से पूर्व दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से अथवा बैठक के दौरान ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने की प्रविधि इत्यादि जो भी हैं उन्हें उपर्युक्त बैठक के आयोजन की सूचना की टिप्पणियों में दिया गया है।

उपर्युक्त बैठक की सूचना से संलिंग्नित प्रलेखों के साथ सूचना कंपनी के अप्रतिभृत ऋणदाताओं को 31 जुलाई 2021 (कट-ऑफ तिथि के रूप में) को प्रेषित कर दी गई है।

दूरस्थ ई-मतदान की कट-ऑफ तिथि तथा उपर्युक्त बैठक के दूरस्थ ई-मतदान की समयावधि निम्नानुसार है:

दुरस्थ ई–मतदान की कट–ऑफ तिथि शनिवार 31 जुलाई 2021 दूरस्थ ई-मतदान का प्रारंभिक दिवस, तिथि एवं समय मंगलवार 29 मार्च 2022 प्रातः 09.00 बजे (आईएसटी) दुरस्थ ई-मतदान समापन दिवस, तिथि एवं समय शुक्रवार 1 अप्रैल 2022 सायं 05.00 बजे (आईएसटी)

यदि एक अप्रतिभूत ऋणदाता दूरस्थ ई-मतदान के साथ-साथ बैठक के दौरान ई-मतदान द्वारा मतदान करते हैं तो इस स्थिति में दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से होनेवाला मततदान ही प्रमान्य होगा और बैठक के दौरान ई–मतदान द्वारा किया जानेवाला मतदान अवैध माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, अप्रतिभूत ऋणदातागण जो दूरस्थ ई–मतदान के माध्यम से अपना मतदान करने का विकल्प चुनते हैं केवल उन्हें ही उपर्युक्त बैठक में उपस्थित रहने का अधिकार होगा परंतु उन्हें बैठक के दौरान पुनः मतदान करने की अनुमति नहीं मिलेगी।

ऐसे अप्रतिभुत ऋणदातागण जिनकी ई–मेल आईडी कंपनी के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं हैं, वे अपनी बैठक के आयोजन की सूचना की टिप्पणियों मे उपलब्धानुसार ई-मतदान के लिए प्रयोक्ता आईडी एवं पासवर्ड की अधिप्राप्ति करने तथा ईमेल आईडी का पंजीकरण करने हेतु प्रक्रिया का अनुसरण कर

इसके अतिरिक्त, अप्रतिभत ऋणदातागण, जिनके नाम उपरोक्त कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी के अभिलेखों में अभिलेखित हैं, केवल वही मतदान करने के अधिकारी होंगे। अप्रतिभूत ऋणदाताओं के मतदानाधिकार जो हैं / होंगे वे 31 जुलाई 2021 के अनुसार कंपनी की बहियों में अभिलेखित ऋणों के मूल्य के अनुपात में होंगे।

चूंकि उपर्युक्त बैठक का आयोजन वीसी/ओएवीएम के माध्यम से किया जाएगा अतः प्रोक्सीज की नियुक्ति की सुविधा जो है वह बैठक के लिए अनुपलब्ध होगी। हालांकि, संस्थागत / निगमित ऋणदातागण इत्यादि जो हैं वे बैठक में भागीदारी के लिए दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने के उददेश्य से अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने के अधिकारी हैं। हालांकि, निगमित ऋणदातागण जो हैं वे दूरस्थ ई–मतदान और इस बैठक के दौरान ई–मतदान के माध्यम से मतदान करने के उददेश्य से अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति कर सकते हैं, परंतु इसके लिए शर्त यह है कि ऐसे निगमित ऋणदातागण जो कि अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने के इच्छुक हैं, उनसे अपेक्षा है कि वे बैठक के प्रारंभ होने के अनुसूचित समय से पूर्व 48 घंटों में ईमेल द्वारा csrahuljogi@gmail.com अथवा cs@ricoauto.in को निदेशक मंडल अथवा निगमित कंपनी के अन्य शासनकारी निकाय की पॉवर ऑफ अटार्नी अथवा प्राधिकारिता पत्र अथवा बोर्ड संकल्प की एक विधिवत प्रमाणित प्रति इस संदर्भ में प्रेषित करें कि वे अपने प्रतिनिधि(यों) को इस बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए प्राधिकारिता प्रदान कर रहे हैं और इस आशय की एक प्रति evoting@nsdl.co.in को भी प्रेषित करें।

माननीय अधिकरण ने कंपनी की उपर्युक्त बैठक के लिए श्री आशीष चोपड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता को अध्यक्ष, श्री राघव कक्कड़, अधिवक्ता को वैकल्पिक अध्यक्ष तथा श्री राहुल जोगी, अधिवक्ता को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है। समामेलन की योजना, यदि उपर्युक्त बैठक में अनुमोदित हो जाती है, तो माननीय अधिकरण के भी उत्तरवर्ती अनुमोदन के अधीन होगी। उपर्युक्त बैठक के परिणाम की घोषणा जो है वह जांचकर्ता के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर बैठक के समापन के सात (7) कार्यदिवसों के अंदर बैठक के

अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और घोषणा को एनएसडीएल और रजिस्ट्रार एवं अंश अंतरण अभिकर्ता को अधिसुचित करने के अतिरिक्त कंपनी के सुचना–पट अधिनियम तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली की धारा 102 तथा अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित धारा 230 से 232 के अंतर्गत उक्त सुचना,

योजना और व्याख्यात्मक विवरण की प्रति, निरीक्षण हेत् कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध होगी। मतदान से संबंधित किसी पूछताछ / शिकायत की स्थिति में अप्रतिभूत ऋणदातागण www.evoting.nsdl.com के "डाउनलोड्स" सेक्शन पर उपलब्ध

दिनांकः 02.03.2022

(प्राधिकृत अधिकारी)

अंशधारकों हेतु एफएक्यू सेक्शन और ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल का संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नं. 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं अथवा evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध प्रेषित कर सकते हैं।

कृते रिको एल्यूमीनियम एंड फेरस ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड

अप्रतिभूत ऋणदाताओं की बैठक

बी.एम. झांब प्राधिकृत प्रतिनिधि / कंपनी सचिव (एफसीएस: 2446) UCO BANK

ए-148, प्रियदर्शिनी विहार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110095, फोन: 011-22521148

शाखा लक्ष्मी नगर (2301), दिल्ली-110092

सोने की नीलामी सूचना स्थानीय सोना-चांदी डीलरों/व्यापारियों/जनसाधारण के मध्य नीलामी सूचना का प्रारूप प्रसारित किया जाना है निम्नलिखित अग्रिम खातों के अंतर्गत बैंक के पास बंधककृत आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय का आयोजन

22.03.2022 को अप. 4.00 बजे उपरोक्त शाखा परिसरों में किया जाएगा। इस हेतु बोलियां एक बंद लिफाफे में आरक्षित

मूल्य के 10 प्रतिशत के डीडी / पे ऑर्डर के साथ 22.03.2022 को अप. 2.00 बजे तक अथवा इससे पूर्व जमा की ज

सकती हैं। नीलाम करने हेतु प्रस्तावित आभूषणों के विवरण नीचे दिए गए हैं। स्वर्ण की शुद्धता 18 से 22 कैरेट की है।

क. सं.	खाता संख्या	कर्जदार का नाम एवं पता	गहने का विवरण	लगभग वजन सोने का (सकल)	आरक्षित मूल्य	बकाया राशि
=	23010610008379	श्री सुखदेव सिंह कलसी पुत्र दयाल सिंह 331/वी-22 गली नं.4, राजगढ़ कालोनी, गाँधी नगर एस.ओ. पूर्वी दिल्ली-110031	सोने का सिक्का (1)		रू. 2,47,000/-	रू.1,91,130/- + लागू नहीं किया गया ब्याज
2.	23010610007990	श्री सुखदेव सिंह कलसी पुत्र दयाल सिंह 331/वी-22 गली नं.4, राजगढ़ कालोनी, गाँधी नगर एस.ओ. पूर्वी दिल्ली-110031	अंगूठी (4) झुमकी (2) चैन (1) बच्चा कड़ा (1)	17.200 ग्राम 12.700 ग्राम 10.100 ग्राम 10.000 ग्राम	रू. 2,05,000/-	रू.1,85,000/- + लागू नहीं किया गया ब्याज
3.	23010610008003	श्री सुखदेव सिंह कलसी पुत्र दयाल सिंह 331/वी-22 गली नं.4, राजगढ़ कालोनी, गाँधी नगर एस.ओ. पूर्वी दिल्ली-110031	चूड़ी (4) बच्चा कड़ा (1)	45.600 ग्राम 7.200 ग्राम	概. 2,25,000/-	रू.2,06,000/- + लागू नहीं किया गया ब्याज
4.	23010610008218	श्री सुखदेव सिंह कलसी पुत्र दयाल सिंह 331/वी-22 गली नं.4, राजगढ़ कालोनी, गाँधी नगर एस.ओ. पुर्वी दिल्ली-110031	चूडी (2) कड़ा (1)	40.900 ग्राम 24.300 ग्राम	रू. 2,80,000/-	रू.2,59,622/- + लागू नहीं किया गया व्याज

- 1. बैंक जो है वह आभूषण/आभूषणों/सिक्कों के भार अथवा शुद्धता, इसके साथ–साथ इनके स्वर्ण तत्वों अथवा अन्यथा के लिए आश्वस्त नहीं करता।
- 2. आभूषण जो हैं वे बैंक में किसी भी कार्यदिवस पर कार्यकारी समयावधि में इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा निरीक्षण-अवलोकन किए जाने हेतु उपलब्ध हैं।
- 3. आभूषणों को 24 घंटों के अंदर अथवा बैंक के आगामी कार्यदिवस पर इसकी कार्यकारी समयावधि में शेष राशि के भुगतान पर सर्वोच्च बोलीदाता को सौंप दिया जाएगा।
- 4. असफल बोलीदातागण, नीलामी के तत्काल बाद धरोहर राशि को वापस प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। 5. यह बैंक के लिए विधिपूर्ण व्यवस्था होगी कि वह बिना कोई कारण बताए ही किसी भी चरण में नीलामी को रोक दे
- ऐसी स्थिति में हर उस बोलीदाता की धरोहर राशि वापस कर दी जाएगी जिसने भी इसे जमा किया होगा। 6. नीलामी के माध्यम से आभूषण क्रयार्थ एक प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में जो अंतिम निर्णय लिया जाएगा वह बैंक

द्वारा लिया जाएगा और बैंक जो है वह सर्वोच्च प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।

स्थानः दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, यूको बँक दिनांक: 03.03.2022

शाखा लक्ष्मी नगर (2301), दिल्ली-110092

रिको ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड पंजी. एवं निग.कार्यालयः 38 केएम स्टोन, दिल्ली-जयपुर राजमार्ग, गुरुग्राम-122001, हरियाणा

ईमेलः cs@ricoauto.in, वेबसाइटः www.ricoauto.in दूरभाष सं. 0124-2824000, फैक्सः 0124 2824200 सीआईएनः एल34300एचआर1983पीएलसी023187 राष्ट्रीय कंपनी विधिक अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ के समक्ष

प्रपत्र सं. सीएए.2 (धारा 230 (3) तथा नियम 6 एवं 7 के अनुपालन में) कंपनी आवेदन सं. सीए(सीएए)-43 / सीएचडी / एचआरवाई / 2021

कंपनी (समझौता, व्यवस्थापन और समामेलन) नियमावली 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 से 232 और अन्य लागू प्रावधानों के प्रसंग में

> रासा ऑटोकॉम लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कंपनी–1/आवेदक कंपनी–।)

समामेलन की योजना के प्रसंग में जो कि

रिको एल्यूमीनियम एंड फेरस ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कंपनी-2/आवेदक कंपनी-11)

> रिको इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कंपनी-3/आवेदक कंपनी-111)

रिको ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड (हस्तांतरिती कंपनी/आवेदक कंपनी-IV)

उनके संबंधित अंशधारकों और ऋणदाताओं के मध्य है (संक्षिप्तता के लिए आवेदक कंपनी–।, आवेदक कंपनी–।।, आवेदक कंपनी–।।। और आवेदक कंपनी–IV यहां इसमें इसके उपरांत सामृहिक रूप में

> "आवेदक कंपनियों" के रूप में संदर्भित हैं)। रिको ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("कंपनी") के समता अंशधारकों, प्रतिभूत ऋणदाताओं और अप्रतिभूत

ऋणदाताओं की बैठक की सूचना की सूचना तथा विज्ञापन

एतदद्वारा सचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधिक अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ (''अधिकरण'') ने अपने एक आदेश दिनांकित 06 जनवरी 202**2** (''आदेश'') द्वारा निर्देश दिया है कि कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') के अंतर्गत विरचित नियमावली के साथ पठित उसकी धारा 230 से 232 के प्रावधानों के अंतर्गत आवेदक कंपनियों और उनके संबंधित अंशधारकों एवं ऋणदाताओं के मध्य समामेलन की प्रस्तावित योजना पर विचार करने, और यवि विचार उचित बनता है तो इसका संशोधन(नों) के साथ अथवा इसके / इनके बिना अनुमोदन करने, के उद्देश्य से कंपनी के अप्रतिभूति ऋणदाताओं, प्रतिभूत ऋणदाताओं और समता अंशधारकों की पृथक बैठकों का आयोजन किया जाए।

अधिनियम के लागू प्रावधानों के साथ पठित उपर्युक्त आदेश और उसमें उसके अंतर्गत दिए गए निर्देश, उसके अंतर्गत निर्गत परिपत्रों और सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 44 के अनुपालनानुसार एतदद्वारा आगे यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के अप्रतिभृत ऋणदाताओं, प्रतिभृत ऋणदाताओं और समता अंशधारकों की पृथक बैठकों का आयोजन जो है वह यहां इसमें निम्न वर्णित अनुसूची के अनुसार दूरस्थ ई-मतदान की सुविधा के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग / अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (''वीसी / ओएवीएम'') के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें उपस्थित

होने के लिए कंपनी के अप्रतिभूत ऋणदाताओं, प्रतिभूत ऋणदाताओं और समता अंशधारकों से अनुरोध किया जाता है: क्र.सं. बैठक के विवरण समय (आईएसटी) बैठक का दिवस एवं तिथि 1 अप्रतिभूत ऋणदातागण शनिवार 2 अप्रैल 2022 02.30 बजे अपराहन रविवार 3 अप्रैल 2022 10.00 बजे प्रातः

2 प्रतिभृत ऋणदातागण रविवार 3 अप्रैल 2022 3 समता अंशधारकगण 12.30 बजे अपराहन माननीय अधिकरण के उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में कंपनी ने उपर्युक्त बैठकों के दौरान दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक मतदान (''दूरस्थ ई–मतदान'') तथा ई–मतदान

के माध्यमों से मतदान करने की स_ुविधा उपलब्ध कराई। कंपनी ने बैठकों के दौरान सभी प्रतिभागियों को दूरस्थ ई—मतदान और ई—मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के उददेश्य से एनएसडीएल की सुविधा जुटाई। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठकों से जुड़ने के विस्तृत अनुदेश, बैठक से पूर्व दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से अथवा बैठक के दौरान ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने की प्रविधि इत्यादि जो भी हैं उन्हें उपर्युक्त बैठकों के आयोजन की सूचना की टिप्पणियों में दिया गया है। उपर्युक्त बैठकों की सूचनाओं से संलग्नित प्रलेखों के साथ सूचनाएं कंपनी के समता अंशधारकों को 18 फरवरी 2022 (कट—ऑफ तिथि के रूप में) के

तथा कंपनी के प्रतिभूत ऋणदाताओं व अप्रतिभूत ऋणदाताओं को 31 जुलाई 2021 को प्रेषित कर दी गई हैं। दूरस्थ ई-मतदान की कट-ऑफ तिथि तथा उपर्युक्त बैठकों के दूरस्थ ई-मतदान की समयावधि निम्नानुसार है:

ı	विवरण	समता अशधारका की बठक	प्रतिभूत ऋणदाताओं की बैठक	अप्रातभूत ऋणदाताओं की बैठक
١	दूरस्थ ई–मतदान की कट–ऑफ	शुक्रवार 25 मार्च 2022	शनिवार 31 जुलाई 2021	शनिवार 31 जुलाई 2021
	दूरस्थ ई–मतदान का प्रारंभिक	मंगलवार 29 मार्च 2022 प्रातः	मंगलवार 29 मार्च 2022 प्रातः	सोमवार 28 मार्च 2022 प्रातः
	दिवस, तिथि एवं समय	09.00 बजे (आईएसटी)	09.00 बजे (आईएसटी)	09.00 बजे (आईएसटी)
	दूरस्थ ई–मतदान समापन	शनिवार 2 अप्रैल 2022 सायं	शनिवार 2 अप्रैल 2022 सायं	शुक्रवार 1 अप्रैल 2022 सायं
	दिवस, तिथि एवं समय	05.00 बजे (आईएसटी)	05.00 बजे (आईएसटी)	05.00 बजे (आईएसटी)

यदि एक समता अंशधारक, प्रतिभूत ऋणदाता अथवा अप्रतिभूत ऋणदाता दूरस्थ ई-मतदान के साथ-साथ बैठकों के दौरान ई-मतदान द्वारा अपना मतदान करते हैं तो इस स्थिति में दूरस्थ ई–मतदान के माध्यम से होनेवाला मततदान ही प्रमान्य होगा और बैठकों के दौरान ई–मतदान द्वारा किया जानेवाला मतदान अवैध माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, समता अंशधारकगण, प्रतिभूत ऋणदातागण अथवा अप्रतिभृत ऋणदातागण, जैसा भी मामला हो, में से जो गण दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से अपना मतदान करने का विकल्प चुनते हैं केवल उन्हें ही उपर्युक्त बैठकों में उपस्थित रहने का अधिकार होगा परंत् उन्हें बैठकों के दौरान पनः मतदान करने की अनुमति नहीं मिलेगी वे समता अंशधारकगण, जिन्होंने अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि उसे पंजीकृत कर कर लें। यदि समता अंशों को डिमेट

प्रारूप में धारित किया गया है तो अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के पास पंजीकृत करें और यदि समता अंशों को भौतिक प्रारूप में धारित किया गया है तो कृपया फोलियो नं., अंशधारक का नाम, अंश प्रमाणपत्र की स्कैंड प्रति (आगे और पीछे), पैन (स्वयं–सत्यापित), आधार (स्वयं–सत्यापित) उपलब्ध कराए और cs@ricoauto.in पर मेल करें। इसके अतिरिक्त, ऐसे प्रतिभूत ऋणदातागण और अप्रतिभूत ऋणदातागण जिनकी ई–मेल आईडी कंपनी के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं हैं, वे संबंधित बैठको

की सचनाओं की टिप्पणियों में उपलब्धानसार ई-मतदान के लिए प्रयोक्ता आईडी एवं पासवर्ड की अधिप्राप्ति करने तथा ईमेल आईडी का पंजीकरण करने एक समता अंशधारक, जिसका नाम उपरोक्त कट-ऑफ तिथि के अनुसार डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों की सूची/सदस्यों की पंजिक

में अभिलेखित है, केवल वही मतदान विकल्प प्राप्त करने का अधिकारी होगा। समता अंशधारकों के मतदानाधिकार जो हैं / होंगे वे 25 मार्च 2022 के अनुसार कंपनी की चुकता अंश पूंजी में उनकी धारिता के अनुपात में होंगे।

इसके अतिरिक्त, ऐसे प्रतिभूत ऋणदातागण और अप्रतिभूत ऋणदातागण जिनके नाम उपरोक्त कट—ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी के अभिलेखों में अभिलेखित हैं, केवल वही मतदान करने के अधिकारी होंगे। प्रतिभूत ऋणदाताओं और अप्रतिभूत ऋणदाताओं के मतदानाधिकार जो हैं / होंगे वे 31 जुलाई 2021 के अनुसार कंपनी की बहियों में अभिलेखित ऋणों के मुल्य के अनुपात में होंगे।

यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषणोपरांत परंतु कट—ऑफ तिथि अर्थात् 25 मार्च 2022 को अथवा इससे पूर्व कंपनी का समता अंशधारक बन चुका है, अथवा सूचना के प्रेषणोपरांत ईमेल पता पंजीकृत कर चुका है, तो ऐसे समता अंशधारक जो हैं वे बैठक की सूचना में रेखांकित विधि के तहत प्रयोक्ता आईडी

चुंकि उपर्युक्त बैठकों का आयोजन वीसी/ओएवीएम के माध्यम से किया जाएगा अतः प्रोक्सीज की नियुक्ति की सुविधा जो है वह बैठकों के लिए अनुपलब्ध होगी। हालांकि, संस्थागत / निगमित अंशधारकगण और ऋणदातागण इत्यादि जो हैं वे बैठकों में भागीदारी के लिए दरस्थ ई–मतदान के माध्यम से मतदान करने के उद्देश्य से अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने के अधिकारी हैं। हालांकि, निगमित सदस्यगण तथा / अथवा ऋणदातागण जो हैं वे

दुरस्थ ई–मतदान और इस बैठक के दौरान ई–मतदान के माध्यम से मतदान करने के उददेश्य से अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति कर सकत हैं परंतु इसके लिए शर्त यह है कि ऐसे निगमित सदस्यगण / ऋणदातागण जो कि अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने के इच्छुक हैं, उनसे अपेक्षा है कि वे संबंधित बैठकों के प्रारंभ होने के अनुसूचित समय से पूर्व 48 घंटों में ईमेल द्वारा csrahuljogi@gmail.com अथव cs@ricoauto.in को निदेशक मंडल अथवा कंपनी के अन्य शासनकारी निकाय की पॉवर ऑफ अटार्नी अथवा प्राधिकारिता पत्र अथवा बोर्ड संकल्प की एक विधिवत प्रमाणित प्रति इस संदर्भ में प्रेषित करें कि वे अपने प्रतिनिधि(यों) को इस बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए प्राधिकारिता प्रदान कर रहे हैं और इस आशय की एक प्रति evoting@nsdl.co.in को भी प्रेषित करें।

माननीय अधिकरण ने कंपनी की उपर्युक्त बैठकों के लिए श्री आशीष चोपड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता को अध्यक्ष, श्री राघव कक्कड, अधिवक्ता को वैकल्पिक अध्यक्ष तथा श्री राहुल जोगी, अधिवक्ता को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है। समामेलन की योजना, यदि उपर्युक्त बैठकों में अनुमोदित हो जाती है तो माननीय अधिकरण के भी उत्तरवर्ती अनुमोदन के अधीन होगी।

उपर्युक्त बैठकों के परिणामों की घोषणा जो है वह जांचकर्ता के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर बैठकों के समापन के दो (2) कार्यदिवसों के अंदर बैठकों के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और घोषणा को कंपनी की वेबसाइट www.ricoauto.in पर तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर प्रदर्शित किया जाएगा, इसके अलावा इसे स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी सम्प्रेषित

अधिनियम तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली की धारा 102 तथा अन्य लाग प्रावधानों के साथ पठित धारा 230 से 232 के अंतर्गत उक्त सचनाएं. योजन और व्याख्यात्मक विवरण की प्रतियां, निरीक्षण हेतु कंपनी की वेबसाइट www.ricoauto.in पर और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी उपलब्ध होंगी। मतदान से संबंधित किसी पूछताछ / शिकायत की स्थिति में समता अंशधारकगण और ऋणदातागण www.evoting.nsdl.com के ''डाउनलोड्स' सेक्शन पर उपलब्ध अंशधारकों हेतु एफएक्यू सेक्शन और ई–वोटिंग यूजर मैन्युअल का संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नं. 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं अथवा evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध प्रेषित कर सकते हैं।

कृते रिको ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड

बी.एम. झांब दिनांकः 02.03.2022 प्राधिकृत प्रतिनिधि / कंपनी सचिव (एफसीएस: 2446

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड Container Corporation of India Ltd. Navratna Company (A Govt. of India Undertaking) निविदा सूचना (केवल ई–टेंडरिंग के माध्यम से)

रु. 43,62,432/- (जीएसटी सहित)

25.03.2022 को 15.30 बजे

विवरण के लिए www.tenderwizard.com/CCIL पर लॉग ऑन करें।

DhanlaxmiBank

चल मदों/सम्पत्ति का विवरण

देखें।

तिथि : 01.03.2022,

स्थान : नई दिल्ली

110023 से सम्पर्क करें ।

कॉर्पोरेट व्यक्ति का नाम

निगमित / पंजीकृत है

कॉर्पोरेट व्यक्ति के निगमन की तिथि

का प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो)

पंजीकरण परिसमापक की संख्या

दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

दिनांक : 03-03-2022

स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट व्यक्ति

कॉर्पोरेट व्यक्ति की कॉर्पोरेट पहचान संख्या

कॉर्पोरेट व्यक्ति की परिसमापन प्रारंभ तिथि

नाम, पता, ईमेल पता, टेलीफोन नंबर और

पंजीकृत कार्यालय का पता और कॉर्पोरेट व्यक्ति

24 महीने (सेक्शन-11 की धारा-6 के अनुसार)

निविदा संख्या

अनुमानित लागत

अनुबंध की अवधि

धरोहर जमा राशि*

दस्तावेज का मृत्य*

निविदा प्रोसेसिंग शल्क * बिक्री की अवधि (ऑनलाइन)

जमा करने की तिथि एवं समय

खुलने की तिथि एवं समय

*ई-भूगतान के माध्यम से,

केवल ई-टेंडरिंग प्रणाली के माध्यम से आईसीढी / कानपुर, उत्तर प्रदेश में 24 महीनों के लिए विद्युत स्थापनाओं औ सब—स्टेशन से संबंधित सेवाओं हेत् एकल बोली प्रणाली में औँनलाइन निविदायें आमंत्रित हैं। बोली दस्तावेज ऑनलाइन माध्यम से रु. 1000 / – के भूगतान पर केवल वेबसाइट (www.tenderwizard.com/CCIL) से डाउनलोड किया जा सकता है।

कॉन / एरिया-1 / टेक / आईसीडी / कानुपर / एएमसी / इलेक्ट / 2022

रु. 87,249 (ई-भूगतान के माध्यम सें) सेक्शन-। की धारा 2.1 (क) के अनुसार

रु. 2,574/- (18% जीएसटी सहित) ई-मुगतान के मध्यम से जो अप्रतिदेव है

रु. 1,000/- ई-भूगतान के माध्यम से सभी करों एवं प्रभारों सहित

03.03.2022 को 15:00 बजे से 23.03.2022 16:00 बजे तक

24.03.2022 को 15.00 बजे तक (केवल ई-टेंडरिंग प्रणाली)

कॉनकॉर बिना कोई कारण बताये किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। सम्पूर्ण

चल सम्पत्तियों की बिक्री की ई-नीलामी सुचना

एतदुद्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणी और गारंटर को सुचना दी जाती है कि नीचे वर्णित

चल वस्तुएँ/संपत्ति जो धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय प्रथम तल 10185ए आर्य समाज

रोड करोल बाग नई दिल्ली 110005 के कब्जे में है, मैसर्स नोएडा मेडिकेयर सेंटर लिमिटेड और

श्री नवीन चौधरी, श्रीमती अमिता चौधरी और मैसर्स एनएमसी बायोफार्म प्राइवेट लिमिटेड से

धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड (पूर्व का एनएमसी ओवरसीज लिमिटेड) के बकाये 28.02.2022 तक रु.

29,02,16,178.33 (रुपये उनतीस करोड़ रुपये दो लाख सोलह हजार एक सौ अठहत्तर एवं तैंतीस

पैसे मात्र) एवं अन्य प्रभारों की वस्ली के लिए 06.04.2022 को "जहाँ है, जैसा है", "जो है यही

है'' आधार पर बेचा जाएगा। आरक्षित मुल्य रु. 12,00,000/- (रुपये बारह लाख मात्र) और जमा

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया धनलक्ष्मी बैंक की वेबसाइट www.dhanbank.com

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

विकास सदन डीडीए कार्यालय परिसर शाखा, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

कि, सुशील कुमार, पुत्र श्री पूरण सिंह एवं श्रीमती उमलेश रानी, पत्नी श्री सुशील कुमार, निवासी: ए-1/454/ए, सेक्टर-6, रोहिणी, दिल्ली-110085, जो डीडीए एमआईजी फ्लैट नं.

126, प्रथम तल, मादीपुर के स्वामी है। कि, फ्लैट नं. 126 से संबंधित दस्तावेज जैसे

1) अतिरिक्त बुक नं.1, वॉल नं. 3120, 52 से 53 तिथि 21.08.2008 में मुल कॉन्वीयन्स

डीड-कम-बिक्री प्रलेख न. 17100, 2) मूल मांग पत्र सं. एम/331(45)2004/टीबीएसएच

04/एमडी ब्लॉक एंड तिथि 31.08.2004 एवं 3) मूल कब्जा पर्ची नं. 331(45)2004/टीबीएचएस-04/एमडी-2004 जो डीडीए द्वारा जारी की गई थी तथा

डीडीए, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 से श्री सुशील कुमार एवं श्रीमती उमलेश रानी

द्वारा खरीद की गई थी. कहीं गम हो गई/स्थानच्यत हो गई है। अब यह सम्पत्ति हमारे ग्राहक

श्री दीपक कुमार सिंह द्वारा खरीदी जा रही है तथा हमारा बैंक इसके लिये वित्त उपलब्ध

करा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो, वे इस विज्ञापन की तिथि से सात (07)

दिनों के भीतर अपनी आपत्ति जमा करें तथा यदि किसी व्यक्ति को वह कहीं मिले तो कृपया

9999917128 एवं bmdela2695@centralbank.co.in, सेन्ट्रल बैंक ऑफ

इंडिया, बी∕ओ:डीडीए कार्यालय परिसर, विकास सदन, आईएनए मार्केट, नई दिल्ली

प्रपत्र फॉर्म ए

सार्वजनिक सुवना

(भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड का विनियमन 14 (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2017)

ब्लुक्रेस्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ

11.09.2018

28.02.2022

ईमेल आईडीः

011-42440071-74

30.03.2022

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि ब्लूक्रेस्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने 28.02.2022 को खैक्छिक परिसमापन

शुरू कर दिया है। ब्लूक्रेस्ट टेक्नोलॉर्जी प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों को एतदहारा परिसमापक को 30.03.2022 को

वितीय लेनदारों को केवल इलेक्टोंनिक माध्यम से अपने दावों का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी हितधारक

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण

जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने बैंक की सीआर पार्क शाखा को आपके द्वारा

के अनुसार संलग्न अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है। बैंक को आपके द्वारा

देय राशि मै. सुखबीर जैन सन एंड कं. प्राईवेट लिमिटेड की खाता में आगे के ब्याज तथा लागतों के साथ

11.02.2022 को रु. 11.07.59.675.72 (ग्यारह करोड़ सात लाख उन्सठ हजार छ: सौ पचहत्तर एवं पैसे

तथा जैसा कि ऋणधारक/सह-देनदार/गारंटर अनुसूचित सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने के बावजूद बैंक की

बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, एतद्द्वारा सुचित किया जाता है कि इस सूचना की प्राप्ति

की तिथि से 30 दिनों की समाप्ति पर अचल सम्पत्ति की निविदा आमंत्रण/सार्वजनिक नीलामी/निजी संधि

द्वारा बिक्री की जायेगी। नीलामी की तिथि एवं समय के विषय में सरफैसी अधिनियम में वर्णित रूप से

अलग से सुचना दी जाएगी तथा सम्पत्ति की बिक्री उच्चतम बोली का प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति को की

अतः विषय अधिनियम तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसार यह सूचना जारी कर आपको निर्देश

दिया जाता है कि बिक्री सुचना के प्रकाशन से पूर्व बैंक की बकाया राशि का भूगतान करें। वैकल्पिक रूप

से यदि अनुसूचित सम्पत्ति के लिये आपके पास कोई बेहतर प्रस्ताव हो तो आप ऐसे क्रेता को बिक्री की

यह विषय अधिनियम अथवा प्रचलित किसी कानून के अंतर्गत बैंक को उपलब्ध किसी अन्य अधिकारों के

प्रति पर्वाग्रह रहित रूप में आगे कोई सचना दिये बिना बिक्री की निर्धारित करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी

अचल सम्पत्तियों की अनुसूची

मद # 1. पंकज जैन (अब मृत तथा प्रतिनिधित्व द्वारा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों-एड्रेसी नं. 2 से 4)

के स्वामित्व में व्यावसायिक भवन, माप 35.39 वर्ग मी. अथवा 381 वर्ग फीट जिसमें छत के अधिकार

के बिना सीलिंग लेवल तक प्रथम तल पर दो कोल्की के साथ एक हॉल, टायॅलेट शामिल है, सम्पत्ति सं.

83 का भाग जिसका विशेष रूप से विवरण एसआरओ-III दिल्ली में 20.12.2014 को पंजीकृत उपहार

प्रलेख सं. 10350 तिथि 18.12.2014 में वर्णित है। चौहद्दीः उत्तरः मैन चावरी बाजार तथा फुटपाथ, दक्षिणः

मद # 1. पंकज जैन (अब मृत तथा प्रतिनिधित्व द्वारा उनके कानुनी उत्तराधिकारियों-एड्रेसी नं. 2 से 4)

के स्वामित्व में तालक पीतमपरा, दिल्ली में मालकपर छावनी की राजस्व सम्पदा में फ्रीहोल्ड सम्पत्ति सं.

एफ-12/10 बी, आवासीय भवन सहित जो भिम माप 200 वर्ग यार्डस पर निर्मित है जो आवासीय कॉलोनी

मॉडल टाउन, दिल्ली-110009 की ले आउट योजना में कुल भूमि माप 635 वर्ग यार्ड्स में निर्मित है, का

सभी भाग तथा हिस्सा जिसका विशेष रूप से विवरण एसआरओ-IVए, दिल्ली में बिक्री प्रलेख सं. 2232

चौहद्दीः उत्तरः सम्पत्ति सं. एफ-13/10-ए, दक्षिणः रोड, र्पवः प्लॉट नं. एफ-12/10-ए तथा पश्चिमः रोड

देय बकाया देयता के सिलसिले में 11.02.2022 की विषय अधिनियम की धारा 13 (4)

एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(8) के अनुसार जारी सुचना

1. मैं सुखवीर जैन सन एवं क. प्राइवेट लिमिटेड | 2. सुश्री प्रीति पंकज जैन

या उससे पहले अपने दावों का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। पोइंट 7 के सामने उल्लिखित पता।

व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दावों का प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावें के झूठें या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर दंड लग सकता है।

प्रतिनिधित्व द्वारा उसके निदेशक, डोर नं. 83,

एफ-12/10 बी, मॉउल टाउन-2, लेक के

निर्धारित तिथि या उससे पूर्व उसे प्रस्तुत कर सकते हैं।

अन्य सम्पत्ति, पूर्वः अन्य सम्पत्ति, पश्चिमः अन्य सम्पत्ति

www.readwhere.com

तिथि 24.02.2010 के अंतर्गत वर्णित है।

तिथि: 24.02.2022

स्थानः दिल्ली

के किसी अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह रहित है।

निकट, बोट क्लब के सामने, नई दिल्ली-

प्रथम तल, चावरी बाजार, नई दिल्ली-110006

नाम : नीलेश शर्मा

कंपनी रजिस्ट्रार - मुंबई

U74999MH2018FTC313862

नई दिल्ली-110024

nilesh.sharma@rrrinsolvency.com,

bluecrest.vol.liquidation@gmail.com टेलीफोन नंबर: +91 98114 18701,

ब्लुक्रेस्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के मामले में परिसमापव

पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-002/IP-N00104/2017-18/10232

अंचल कार्यालय : दिल्ली प्लॉट नं. 20 एवं 21/1, करोल बाग मेट्रो स्टेशन के निकट, मेट्रो पिलर नं. 98 के सामने, पूसा रोड,

करोल बाग, नई दिल्ली-110005, फोन नं. 45128661

ई-मेल : ro1008@sib.co.in CIN :L65191KL1929PLC001017

एफ-12/10 बी, मॉउल टाउन-2, लेक के

निकट, बोट क्लब के सामने, नई दिल्ली-

की मां एवं अभिभावक के रूप में)

4. सुश्री प्रीति पंकज जैन (मास्टर आर्यवीर जैन

nilesh.sharma@rrrinsolvency.com

IBBI/IPA-002/IP-N00104/2017-18/10232

नीलेश शर्मा

एनपीवी हाउस, डी विंग, चाणक्य सीएचएस लिमिटेंड

लिंक रोड, कॉदिवली (W), मुंबई 400067, महाराष्ट्र ।

पता : सी-10, निचला भूतल, लाजपत नगर-III,

(मुख्य प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया)

ब्लुक्रेस्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

Central Bank of India

धरोहर राशि रु. 1,20,000/- (रुपये एक लाख बीस हजार मात्र) होगी।

किंपनीज़ (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार

कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए) के मामलें में

प्रस्ताव के अनुकृत, केंद्रीय सरकार के समक्ष कंपनी की

संस्था बहि नियमावली में परिवर्तन करने की यायिका प्रस्तृत किया जाना प्रस्तावित है। सकता है या शपथ पत्र द्वारा समर्थित उसके हित की

बीएनएस एसोसिएट्स प्राइवेट सिमिटेड

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी सूचना

एतदद्वारा सर्वसाधारण तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारंटरों को सचित किया जाता है कि नीचे वर्णित मदों/सम्पत्ति जो धनलक्ष्मी बैंक लि. अंचल कार्यालय, 1ला तल, 10185 ए, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 के कब्जे में है, की मै. नोएडा मेडिकेयर सेन्टर लि. तथा श्री नवीन चौधरी, श्रीमती अमीता चौधरी एवं मै. एनएमसी बायोफार्म प्रा. लि. (पूर्व में एनएमसी ओवरसीज लि. विदित) से 28.02.2022 को रु. 29,02,16,178.33 (रु. उन्नतीस करोड़ दो लाख सोलह हजार एक सौ अठहत्तर एवं पैसे तैंतीस मात्र) की वसुली के लिये 6.4.2022 को सभी दृष्टियों से ''जैसा है जहां है'' ''जो भी जैसा है'' आधार पर बिक्री की जाएगी। आरक्षित मूल्य रु. 27,00,000/- (रु. सत्ताईस लाख मात्र) तथा धरोहर राशि भुगतान रु. 2,70,000/-(रु. दो लाख सत्तर हजार मात्र) होगी।

क्रम स.	मशानरा का विवरण	क्रम स.	मशानरा का विवरण
1.	एयर लॉक	18.	मल्टी स्टेशन टैबलेट कम्प्रेशन मशीन
2.	स्ट्रैपिंग मशीन	19.	टैब्लेट कोटर
3.	स्ट्रिप पैकिंग मशीन	20.	ऑटो कोटर
4.	सुगर टैंक	21.	चिलर
5.	ब्लेण्डर	22.	एचवीएसी सिस्टम
6.	रैपिड मिक्स ग्रेन्यूलैटर	23.	इलेक्ट्रिकल पेनल्स
7.	कैडिमल मल्टीमिक्स	24.	ट्रॉली
8.	फ्लोर क्लीनिंग मशीन	25.	रेक्स
9.	लिफ्ट	26.	कैबल
10.	प्रैशर ओवन	27.	
11.	फ्लुईड बेड ड्रायर	28.	टेस्टिंग उपकरण
12.	स्टीम पैन	29.	क्वालिटी कन्ट्रोल इक्विपमेन्ट
13.	पैस्ट मेकर	30.	टैबल्स
14.	ऑटो क्लेव	31.	कुर्सियां
15.	आरओ प्लान्ट	32.	डेसिकेटर
16.	बॉयलर	33.	यूवी कैबिनेट
17.	कम्प्रेसर	34.	स्टीम जनरेटर
बिक्री के विस्	 तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया धनलक्ष्मी बैंक क	 ठी वेबसाईट अर्थात्ः www.dhanb	्री pank.com देखें।
	3.2022, स्थान : नई दिल्ली	,	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, धनलक्ष्मी बैंक ि